



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 7 मार्च, 2024

फाल्गुन 17, 1945 शक सम्बत्

उत्तर प्रदेश शासन

राज्य कर अनुभाग-2

संख्या 211/ग्यारह-2-24-9(47)-17-टी0सी0 254-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (316)-2024

लखनऊ, 07 मार्च, 2024

अधिसूचना

प0आ0-67

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 158क और एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम संख्या 13 सन् 2017) की धारा 20 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर “पब्लिक टेक प्लेटफार्म फार फ्रिक्शनलैस क्रेडिट” को ऐसी प्रणाली के रूप में एतद्वारा अधिसूचित करती हैं, जिसके साथ उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 158क की उपधारा (2) के अधीन सहमति पर आधारित सूचना सामान्य पोर्टल द्वारा साझा किया जा सकेगा।

स्पष्टीकरण—इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए, “पब्लिक टेक प्लेटफार्म फार फ्रिक्शनलैस क्रेडिट” का तात्पर्य उद्यम श्रेणी का एक ओपन आर्किटेक्चर सूचना प्रौद्योगिकी मंच से है, जिसकी अवधारणा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिनांक 10 अगस्त, 2023 की “विकासकारी और विनियामक नीतियों पर कथन” पर उसके भाग के रूप में की गई है तथा इसका विकास उसके पूर्ण स्वामित्वाधीन अनुषंगी, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब द्वारा प्रत्यय के बृहत वातावरण में उसके प्रचालनों के लिए किया गया है, जिससे विभिन्न डाटा स्रोतों से डिजीटल रूप में सूचना तक पहुंच सुनिश्चित की जा सके और जहां वित्तीय सेवा प्रदाता और बहुल डाटा सेवा प्रदाता मानक और प्रोटोकाल चलित आर्किटेक्चर, ओपन और साझा अनुप्रयोग कार्यक्रम इंटरफेस (एपीआई) फ्रेमवर्क का उपयोग करते हुये किसी मंच पर मिलते हैं, से सूचना तक पहुंच सुनिश्चित की जा सके।

2—यह अधिसूचना दिनांक 22 फरवरी, 2024 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

आज्ञा से,
डॉ० नितिन रमेश गोकर्ण,
अपर मुख्य सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no. 211 / XI-2-24-9(47)-17-T.C.254-U.P.Act-1-2017-Order (316)-2024, dated March 7, 2024 :

No. 211 / XI-2-24-9(47)-17-T.C.254-U.P.Act-1-2017-Order (316)-2024

Dated Lucknow, March 7, 2024

IN exercise of the powers conferred by Section 158A of the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (U.P. Act no. 1 of 2017) and section 20 of the Integrated Good and Services Tax Act, 2017 (Act no. 13 of 2017), the Governor, on the recommendations of the Council, hereby notifies “Public Tech Platform for Frictionless Credit” as the system with which information may be shared by the common portal based on consent under sub-section (2) of section 158A of the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (U.P. Act no. 1 of 2017).

Explanation—For the purpose of this notification, “Public Tech Platform for Frictionless Credit” means an enterprise-grade open architecture information technology platform, conceptualised by the Reserve Bank of India as part of its “Statement on Developmental and Regulatory Policies” dated the 10th August, 2023 and developed by its wholly owned subsidiary, Reserve Bank Innovation Hub, for the operations of a large ecosystem of credit, to ensure access of information from various data sources digitally and where the financial service providers and multiple data service providers converge on the platform using standard and protocol driven architecture, open and shared Application Programming Interface (API) framework.

2. This notification shall be deemed to have come into force on 22nd day of February, 2024.

By order,
Dr. NITIN RAMESH GOKARN,
Apar Mukhya Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 1172 राजपत्र-2024-(3219)-599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 49 सा० राज्य कर-2024-(3220)-1000 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।